



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1937 (श10)

(सं0 पटना 921) पटना, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त 2015

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचनाएं

12 अगस्त 2015

बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली 2015

सं0 प्रेस (शाखा) 254/2014-387/सू०ज०स०वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के मिडिया कर्मियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन दिये जाने हेतु सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के अधीन पेंशन को प्राप्त करने हेतु पात्रता, पेंशन की राशि, अवधि एवं अन्य शर्तों को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ**— यह नियमावली “बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली, 2015” कही जा सकेगी।

- (1) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (2) यह नियमावली निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- (3) राज्य सरकार समय-समय पर इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगी।

2. **परिभाषाएं**— इन नियमावली में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) “सरकार” से अभिप्रेत है, “सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, बिहार, पटना”।
- (ख) “सचिव/प्रधान सचिव” से अभिप्रेत है, “सचिव/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग”।
- (ग) “निदेशक” से अभिप्रेत है “निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग”।
- (घ) “मीडिया कर्मी (पत्रकार)” से अभिप्रेत है, (i) वह व्यक्ति (यथा: पत्रकार/छायाकार/संपादक/समाचार संपादक/उप संपादक/व्यंग चित्रकार, जो किसी दैनिक/सप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्र/पत्रिका/समाचार एजेंसी/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज पोर्टल/न्यूज चैनल/न्यूज एजेंसी आदि में कार्यरत रहे हों), (ii) जो बिहार राज्य के निवासी एवं निवासरत हो तथा बिहार राज्य के किसी पत्र-पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित या स्वतंत्र नियोजन से सेवानिवृत्त हो चुके हों एवं आयकर दाता नहीं हों।

3. पत्रकार पेंशन योजना की पात्रता— यह नियमावली समस्त मीडिया कर्मी के लिए लागू होगी जो बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य में निवासरत हो, तथा

- (i) किसी पत्र-पत्रिका या मीडिया चैनल में नियमित पत्रकार के रूप में कम-से-कम 20 वर्षों तक सवैतनिक/पारिश्रमिक/मानदेय पर कार्योपरान्त सेवानिवृत्त हो चुके हों तथा पेंशनधारी न हो तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में इस योजना हेतु पंजीकृत हो।
- (ii) किसी पत्रिका या मीडिया चैनल में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कम-से-कम 20 वर्षों के कार्योपरान्त सेवानिवृत्त हो चुके हों तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में इस योजना हेतु पंजीकृत हो।
- (iii) जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- (iv) जिन्हें राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन राशि प्राप्त नहीं हो रही हो।
- (v) जो आयकर दाता न हों।
- (vi) आपराधिक मामले या किसी अन्य मामले में सजायापता नहीं हो।

4. बिहार पत्रकार पेंशन योजना की राशि —

- (क) बिहार पत्रकार पेंशन योजना की राशि रुपये 5000/— (पाँच हजार) प्रतिमाह होगी।
- (ख) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रकार पेंशन योजना की राशि का भुगतान पत्रकार पेंशन योजना के लाभुक को बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

5. बिहार पत्रकार पारिवारिक पेंशन योजना :— पत्रकार पेंशन योजना लाभुक की मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार को प्रतिमाह 2500/— (दो हजार पाँच सौ) रुपये की राशि पेंशन के रूप में देय होगी।

पत्रकार के पारिवारिक व्यक्ति पत्रकार पारिवारिक पेंशन योजना के लिए निम्न क्रमानुसार पात्र होंगे :—

- (क) मृतक की विधवा/पति
- (ख) पुत्र/पुत्री (नाबालिग)
- (ग) मृतक के आश्रित पिता/माता (मृतक पेंशनधारी की पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री के नहीं रहने की स्थिति में)

6. पत्रकार पेंशन योजना की अवधि — पत्रकार पेंशन योजना प्रारंभ में पाँच वर्ष के लिए दी जाएगी तथा योजना स्वीकृति के पाँच वर्ष पश्चात् उपर्युक्त नियम 8 (ग) में उल्लिखित समिति द्वारा सभी प्रकरणों की समीक्षोपरान्त योजना को अगले पाँच वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी।

7. पत्रकार पेंशन योजना की प्रभावशीलता — बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य में निवासरत हो तथा बिहार राज्य के किसी पत्र-पत्रिका या मीडिया चैनल के नियमित या स्वतंत्र नियोजन से सेवानिवृत्त, आयकर दाता न हों एवं किसी आपराधिक मामले या किसी अन्य मामले में सजायपता नहीं हो एवं जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, पत्रकार पेंशन योजना के पात्र होंगे। मात्र आवेदन जमा करने का अर्थ यह नहीं होगा कि वे पत्रकार पेंशन योजना के लाभ हेतु पात्र हैं। निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात्, पत्रकार पेंशन योजना स्वीकृत करने संबंधी आदेश निर्गत की तिथि से यह योजना प्रभावी होगी।

8. बिहार पत्रकार पेंशन योजना की अन्य शर्तें :—

- (क) पात्र पत्रकार को बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा, जिससे उनके बैंक खाते में बिहार पत्रकार पेंशन योजना की राशि जमा की जा सके।
- (ख) पत्रकार पेंशन योजना की स्वीकृति के लिए संबंधित मीडिया कर्मी को विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र निम्नलिखित कागजात आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
 - (i) कार्यानुभव से संबंधित शपथ-पत्र;
 - (ii) जिस संस्थान में पत्रकार/छायाकार कार्यरत हो उनके संपादक/व्यवस्थापक/प्रबंधक की अनुशंसा;
 - (iii) वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक सत्यापन हेतु संस्थान द्वारा निर्गत टी०डी०एस०,
 - (iv) आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण (शपथ पत्र);
 - (v) पत्रकार को संस्थान द्वारा किसी भी तरीके से दिये गये पारिश्रमिक संबंधी कागजात,
 - (ग) पत्रकार पेंशन योजना की स्वीकृति हेतु प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी का गठन निम्नरूपेण किया जायेगा—

स्क्रीनिंग कमिटी

	नाम/पदनाम	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य सचिव/सदस्य
(i)	प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	उपाध्यक्ष
(iii)	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग या उनके द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी	सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग या उनके द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी	सदस्य
(v)	हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू दैनिक समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के छः प्रतिनिधि (हिन्दी-दो, अंग्रेजी-एक, उर्दू-एक एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के दो प्रतिनिधि)	सदस्य
(vi)	प्रभारी पदाधिकारी (प्रेस), सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	सदस्य सचिव

- (घ) स्क्रीनिंग कमिटी प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अनुशंसाएँ देगा। स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा मान्य करना विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
- (ङ) उक्त स्क्रीनिंग कमिटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को शामिल किया जायेगा। नामित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। तत्पश्चात पुनः नामित करने की स्वभाविक प्रक्रियानुसार सदस्य नामित किये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति स्क्रीनिंग कमिटी के नामित सदस्य के रूप में केवल एक बार ही नामित होंगे।
- (च) बैठक समिति के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से आहूत की जायेगी। अध्यक्ष की अनुमति से उपाध्यक्ष भी बैठक आहूत कर बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे। स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत की जायेगी।
- (छ) पत्रकार पेंशन योजना की पात्रता स्वीकृति के बाद भी इसे किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित होगी। यदि कोई लाभार्थी आपराधिक मामले में या किसी अन्य मामले में सजायापता हो जाता है तो उसे मिल रहे पेंशन के लाभ को जारी रखने पर विभाग द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा।

9. इस योजना के अन्तर्गत पात्र मीडिया कर्मियों को पत्रकार पेंशन योजना स्वीकृत कराने हेतु अनुषंगिक कार्रवाई निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अनुमोदनोपरान्त प्रभारी पदाधिकारी (प्रेस)-सह-सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।

10. यदि स्क्रीनिंग कमिटी को यह पता चले कि गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृति हो गयी हो अथवा वित्तीय सहाय छल-साधन कर के प्राप्त किया गया है तो पत्रकार पेंशन योजना की स्वीकृति किसी भी समय रद्द कर दी जा सकती है।

11. प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग इस नियमावली के अधीन बिहार पत्रकार पेंशन के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।

12. राज्य सरकार इन नियमों में कोई भी आवश्यक परिवर्तन करने के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट-‘क’
(बिहार पत्रकार पेंशन योजना से वित्तीय सहाय्य हेतु आवेदन प्रपत्र)

सेवा में,

संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (प्रेस)
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

द्वारा:- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी,

1. आवेदक का पूरा नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. पता :-
- (क) आवासीय पूरा पता :-
- (ख) पत्राचार का पूरा पता :-
- (ग) दूरभाष संख्या - मोबाईल नं०-
5. मीडिया का नाम :-
6. मीडिया का पूरा पता :-
7. आवेदक का पदनाम :-
8. कार्यरत स्थल :-
9. सभी सूत्रों से वार्षिक आय :-
10. पत्रकारिता का अनुभव :-

(जहाँ-जहाँ कार्य किए हैं उनकी विवरणी के साथ साक्ष्य संलग्न करें)

11. पत्रकार के आश्रितों के संबंध में :-
- (क) नाम :-
- (ख) आवेदक से संबंध :-
- (ग) आयु :-
- (घ) आयु से संबंधित कागजात संलग्न करें :-

12. कागजात जो संलग्न किये जाते हैं:-

संलग्न कागजात

- (i) आवासीय प्रमाण पत्र :-
- (ii) बैंक खाता विवरणी :-
- (iii) कार्यानुभव से संबंधित शपथ पत्र :-
- (iv) जिस संस्थान में पत्रकार/छायाकार
कार्यरत हो उनके संपादक/व्यवस्थापक
/प्रबंधक की अनुशंसा :-
- (v) वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक सत्यापन हेतु
संस्थापन द्वारा निर्गत टी०डी०एस० :-
- (vi) आयकर दाता न होने का प्रमाण (शपथ पत्र) :-

संलग्न है या नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

(vii) पत्रकार को संस्थान द्वारा किसी भी तरीके से दिये गये पारिश्रमिक संबंधी कागजात। :- हाँ/नहीं

(viii) किसी आपराधिक मामले या किसी अन्य मामले में सजायापताव नहीं होने का स्वघोषणा पत्र :- हाँ/नहीं

13. आवेदक को किसी अन्य स्रोत से पेंशन/अन्य स्रोत से सहायता राशि मिलती है तो किस स्रोत से कितनी राशि मिली है उसका घोषणा पत्र एवं साक्ष्य की फोटो प्रति:-

14. प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त अंकित सभी विवरणी मेरी जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य है।

स्थान:-

(आवेदक का हस्ताक्षर)

तिथि:-

पत्रांक/ज्ञापांक.....दिनांक.....

आवेदन अनुशंसित एवं अग्रसारित।

जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी।

**परिशिष्ट- 'ख'
अनुशंसा**

श्री/श्रीमती/सुश्री.....पदनाम.....

मिडिया का नाम.....कार्यरत स्थल.....के आवेदन में वर्णित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा आवश्यक छानबीन कर ली गयी है जिस संबंध में मेरा प्रतिवेदन निम्नांकित है :-

(1) आवेदक बिहार पत्रकार पेंशन योजना से आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र हैं।

(2) आवेदक स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....पत्रकार/छायाकार की विधवा, पति, बेरोजगार पुत्र/बेरोजगार कुंवारी पुत्री जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है/पिता/माता हैं एवं उनके आश्रित हैं (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)।

(3) आवेदक की आयु उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अनुसार अथवा उसके द्वारा दर्शाए गए अन्य सुसंगत अभिलेख के अनुसार.....वर्ष है।

(4) आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से.....रु० है।

(5) आवेदक द्वारा दिये गए तथ्य एवं प्रपत्र की विवरणी मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही है।

अनुशंसाकर्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम:-

पदनाम:-

तिथि:-

*The 12th August 2015***Bihar Journalist Pension Scheme Rules 2015**

No. Press (Section)254/2014-387/IPRD—In exercise of the powers conferred by article-162 of the Constitution of India, the Governor of Bihar frames the following rules for the determination of the eligibility to obtain the pension, amount of pension, period and other conditions to give pension and family pension to the media persons of the state under the Information & Public Relation Department:-

1. Short title, extent and commencement.— These rules may be called "**Bihar Journalist Pension Scheme Rules 2015**".

- (1) It shall extend to whole of the state of Bihar.
- (2) It shall come into force from the date of issue.
- (3) The state government shall review the implementation of this policy and as required shall make amendments, from time to time.

2. Definitions.— Unless otherwise required in the context in these rules--

- (a) "Government" means "Information & Public Relation Department, Govt. of Bihar, Patna".
- (b) "Principal Secretary/Secretary" means "Principal Secretary/Secretary, Information & Public Relations Department".
- (c) "Director" means, Director, Information & Public Relations Department."
- (d) "Media person (Journalist)" means; (i) The person (i.e. journalist photographer/editor/news editor/deputy editor/cartoonist), working in any daily/weekly/fortnightly magazine/news agency/electronic media/ news portal/ news channel etc, (ii) Who is a resident of Bihar and resides in Bihar and is retired from any regular or independent (freelance) employment of from any magazine or media channel of Bihar and who is not an Income tax payee.

3. Eligibility for Journalist Pension Scheme.— These rules will be applicable to all those media person, who are residents of Bihar and reside in Bihar, and

- (i) Retired from any magazine or media channel after working as a regular journalist on salary/ remuneration/ honorarium for at least 20 years and is not a pension holder and is registered under the I&PRD for this scheme.
- (ii) Retired after working at least 20 years as an independent (freelance) journalist in any magazine or media channel and registered in the Information & Public Relations Department for this scheme.
- (iii) Must have attained an age of 60 years.
- (iv) He/ She should not be getting any pension from the State Government.
- (v) He/ She must not be an Income tax payee.
- (vi) Must not be convicted under criminal case or any other cases.

4. Amount of Bihar Journalist Pension Scheme:-

- (a) The amount of Bihar Journalist Pension Scheme will be Rs.5000/ (five thousand) per month.
- (b) The amount of Bihar Journalist Pension Scheme will be provided to the beneficiaries of this scheme through the bank accounts by the Director, Information & Public Relations Department.

5. Bihar Journalist Family Pension Scheme.— After the death of beneficiary of the Bihar Journalist Pension Scheme, Rs.2500/- (two thousand five hundred) per month as a family pension will be payable to their family.

For the Bihar Journalist Pension Scheme persons of the family member will be eligible in the following order:-

- (a) Widow /husband of the deceased
- (b) Son/Daughter (minor)
- (c) Dependant father/ mother. (in case of absence of husband/ wife/son/daughter of the deceased pension holder).

6. Period of Bihar Journalist Pension Scheme.— Initially Journalist Pension Scheme it will be initiated for five years and after review by the committee mentioned in the rule 8 (c), it may be extended for next five years.

7. Effectiveness of Bihar Journalist Pension Scheme.— Those media persons, who are residents of Bihar and are residing in Bihar and retired from any regular or independent (freelance) employment, of any magazine or media channel of Bihar, who is not an income tax payee, is not convicted for any criminal or other charges and has completed 60 years of age, will be eligible for benefit of the Bihar Journalist Pension Scheme. Mere submission of application form will not mean that they are eligible for the benefit of the Journalist Pension Scheme. The scheme will be effective from the date of issue of the order by the Director IPRD after completing all necessary formalities relating to sanctioning of the Journalist Pension.

8. Other Condition of Bihar Journalist Pension Scheme:-

- (a) Eligible journalists will have to open a saving account with any bank, so that the amount of Bihar Journalist Pension Scheme may be deposited in it.
- (b) For sanctioning of Bihar Journalist Pension Scheme, the concerned media person will have to submit the duly filled application form, attaching along with following documents with the application to the Director, Information & Public Relation Department:-
 - (i) Affidavit, related to work experience;
 - (ii) Recommendation of the editor/organizer/manager of the concerned organization, where the journalist/photographer has worked;
 - (iii) T.D.S issued by agency/organization for the verification of salary/honorarium/remuneration;
 - (iv) Proof of not being an income tax payee (attach affidavit);
 - (v) Any document provided by the organization to the journalist regarding remuneration;
- (c) A high level Screening Committee under the Chairmanship of Principal Secretary/Secretary, Information & Public Relations Department for the sanctioning of Bihar Journalist Pension Scheme will be constituted as follows-

Screening Committee

Name/Designation	-Chairman/Vice-Chairman /Member Secretary/Member.	
(i) Principal Secretary/ Secretary, IPRD	—	Chairman
(ii) Director, IPRD	—	Vice Chairman
(iii) Principal Secretary/Secretary, Finance Deptt. or one officer nominated by them	—	Member

- (iv) Principal Secretary/Secretary
Labour Resources Department or
one officer nominated by them – Member
- (v) Six representations of Hindi/ English/ Urdu
daily news paper and electronic channel
(Hindi-2, English-1, Urdu-1 and 2 representatives
of electronic channel) – Member.
- (vi) Officer In- Charge (Press), I P R D – Member Secretary
- (d) After due scrutiny of the received applications the Screening Committee will give their recommendation. The recommendation of the Screening Committee will not be mandatory for the Department.
- (e) Representatives of the print or electronic media will be included in the said Screening Committee. Tenure of nominated members will be one year. Thereafter, members will be nominated by a normal procedure. A member of the screening committee may be nominated for once only.
- (f) The meeting of the Screening Committee shall be convened by the Member Secretary after the approval of the Chairman. With the prior permission of the Chairman, the Vice Chairman may also convene and preside the meeting. The meeting of the Screening Committee shall be convened as required.
- (g) The Government reserves the right to cancel the eligibility of a journalist under the Journalist Pension Scheme even after granting it. The Government shall reconsider to continue the pension to a beneficiary who is convicted under criminal charges or other charges.

9. Officer-in-charge (Press) –cum Member Secretary may, after the approval of the Director IPRD, take incidental actions for sanctioning the pension to the eligible journalists, under this scheme.

10. If the Screening Committee comes to know that pension has been sanctioned on the basis of wrong facts or if the financial assistance has been taken fraudulently, the approval may be cancelled any time.

11. Under these rules Principal Secretary/Secretary, Information & Public Relations Department shall be the sanctioning authority of the Bihar Journalist Pension Scheme.

12. State Government shall be the competent authority to bring about any changes in these rules.

By order of the Governor of Bihar,

PRATYAYA AMRIT,

Secretary to the Government.

Annexure- "A"

(Application Form for Monetary Assistance under Bihar Journalist Pension Scheme)

To,

The Joint/ Deputy/ Assistant Director (Press)
Information & Public Relations Department,
Bihar, Patna.

Through: - The District Public Relations Officer

.....,

1. Full Name of the Applicant -
2. Father's Name -
3. Date of Birth -
4. Address -
- (a) Full Residential Address -
- (b) Full Address for Communication -
- (c) Telephone No - Mobile No-
5. Name of Media -
6. Address of the Media -
7. Place of working -
8. Annual Income from all Sources -
9. Experience of Journalism -
(Attach the details along with its proof)
10. Dependants of Journalist -
- (a) Name -
- (b) Relationship with Applicant -
- (c) Age -
- (d) Attach documents related to age -
12. Documents to be attached; -
- Attached Documents** **Attached or Not**
- (i) Residential Certificate - yes/no
- (ii) Details of Bank Account - yes/no
- (iii) Affidavit of work experience - yes/no
- (iv) Recommendation of the editor/organizer/
Manager of the concerned agency where
the journalist/photographer, worked - yes/no
- (v) T .D. S for the verification of Salary/
Honorarium/ Remuneration - yes/no
- (vii) Proof of not being an income
tax payee (attach affidavit); - yes/no
- (vii) Documents related to payment of remuneration
by any means given by the organization to the
Journalist by agency through any means - yes/no
- (viii) Self Declaration regarding non conviction in
any charges or criminal charges. - yes/no
13. Declaration and copy of proof of obtaining pension/financial assistance form other sources,
if any:-
14. I declare that, details given above are true and correct to my knowledge.

Place-

Date-

(Signature of applicants)

Letter No/ Memo.....Date-.....

Application recommended and forwarded.

District Public Relation Officer

Annexure-"B"**Recommendation**

Required investigation of the facts, given in the application of Mr./Mrs./Miss.....Designation.....Name of media.....place of work.....has been done by me.

My findings are as follows -

- (1) Applicant is suitable to obtain monetary assistance under Bihar Journalist Pension Scheme.
- (2) Applicant is the widow/ husband/ unemployed son/unemployed daughter whose age is below 21 years, dependent/Father/Mother of late journalist/photographer-
Mr./Mrs./Miss.....

(Strike off which is not applicable)

- (3) The age of applicant, as per the certificate of Date of Birth or other documents produced by him/her is.....years.
- (4) The annual income of the applicant from all sources is Rs.....
- (5) The details and facts given in the Performa given by applicant is correct to my knowledge and belief.

Signature of the Recommending Officer

Full Name -

Designation -

Date -

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 921-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>